



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 18—फरवरी 24, 2006 (माघ 29, 1927)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 18—FEBRUARY 24, 2006 (MAGHA 29, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई-400018, दिनांक 24 जनवरी 2006

सं. शर्बैवि.कॉका. 1/16.05.000/2005-06--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे :

1. "नार्थ कॅनरा जी.एस.बी. को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र" शब्दों के लिए
"एन. के. जी.एस.बी. को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई"
शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

एन. एस. विश्वनाथन
प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक

भारतीय चार्टरप्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनांक 3 फरवरी 2006

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 1-सी.ए./7/(89)/2006--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 159 (1) के अनुसरण में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया की परिषद्, तारीख 1 दिसम्बर, 2005 से नवी मुम्बई में

पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की शाखा की स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की नवी मुम्बई शाखा के नाम से जानी जाएगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, नवी मुम्बई के साथ-साथ, नवी मुम्बई शहर की नगरपालिका की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले निम्नलिखित शहर/नगर आएंगे :

- | | | |
|----------------------|----------------|----------------------|
| 1. सी.बी.डी. बेलापुर | 9. दीव | 17. खांडेश्वर |
| 2. नेरूल | 10. ऐरोली | 18. कालमबोली आर. एस. |
| 3. वाशी | 11. द्रोनागिरी | 19. तलोजा |
| 4. तुर्भे | 12. उरन | 20. महापे |
| 5. पवाने | 13. पनवेल | 21. खालापुर |
| 6. खैराने | 14. पेन | 22. करजत |
| 7. कोपर खैराने | 15. गावनपाड़ा | |
| 8. गोधिवली | 16. वाहल | |

जैसा कि विनियम 159 (3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निदेशों के अधीन रहते हुए पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् के मारफत कार्य करेगी तथा ऐसे निदेशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

डा. अशोक हल्दिया
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

संख्या: यू.16/53/99/पी.टी.एम.आर.(मुंबई)चि.2 : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>
डॉ. एस.आर.करनालकर	01.10.2005से 30.09.2006	चालिस गांव(महाराष्ट्र)

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2006

संख्या: यू.16/53/कर्नाटक/2003/चि.2

शुद्धिपत्र

भारत सरकार के गजट सं. 43 जो कि नई दिल्ली में शनिवार, अक्तूबर, 22-अक्तूबर, 28, 2005 (अश्विन 30, 1927) की अवधि में पृष्ठ 2471 भाग-3 खण्ड- 4 में प्रकाशित हुआ है के अशंतः शुद्धिकरण के संदर्भ में अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी का नाम डॉ० पी. साथानागराज के स्थान पर डॉ० डी. सत्यानागराज पढ़ा जाए ।

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2006

संख्या: यू.16/53/1/2005/ (केरल)चिकित्सा-3 : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, केरल द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नामअवधिकेन्द्र का नाम

डॉ. सान्था राजेन्द्रन

30.11.2005 से 29.11.2006 कन्नूर

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र

मुंबई-400013, दिनांक 23 जनवरी 2006

संख्या : 31-वी-34-11/स्था.स./समन्वय एकक

संख्या : 31-वी-34-11/स्था.स./समन्वय एकक एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-ए-1 के अधीन चालीसगांव क्षेत्र के लिए इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या : 31-वी-34-11/(44) / समन्वय एकक, दिनांक 08.07.1987 के द्वारा गठित स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। इनकी सदस्यता इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष**विनियम 10-ए-1(ए) के अन्तर्गत**

1. सहायक श्रम आयुक्त, महाराष्ट्र शासन,
चालीसगांव

सदस्यगण**विनियम 10-ए-1(बी) के अन्तर्गत**

2. श्रम अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, जलगांव
सहायक श्रम आयुक्त का कार्यालय
राजेन्द्र भवन, विवेकानन्द नगर, जिला-पेठ
नगरपालिका बाग के सामने, जलगांव

विनियम 10-ए-1(सी) के अन्तर्गत

- | | |
|--|--|
| 3. प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी,
क.रा.बी.योजना, महाराष्ट्र शासन, पुणे | 4. प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी,
क.रा.बी. योजना, औषधालय, चालीसगांव |
|--|--|

विनियम 10-ए-1(डी) के अन्तर्गत

- | | |
|---|--|
| 5. श्री सुभाष मोहनलाल शर्मा
उप प्रबंधक,
टेक्सटाईल मिल्स, चालीसगांव
जिला-जलगांव | 6. श्री आनन्द मारुती जगताप,
उप प्रबंधक (सेफ्टी)
टेक्सटाईल मिल्स, चालीसगांव,
जिला-जलगांव |
|---|--|

विनियम 10-ए-1(इ) के अन्तर्गत

- | | |
|--|---|
| 7. श्री सुरेश हरदास चौधरी,
जनरल सेक्रेटरी,
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ,
चालीसगांव,
जिला-जलगांव | 8. श्री राजेन्द्र विठ्ठल गावडे,
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, चालीसगांव,
जिला-जलगांव |
|--|---|

विनियम 10-ए-1(एफ) के अन्तर्गत

9. प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम,
चालीसगांव

आदेशानुसार,

एन. परसुरामन
अपर आयुक्त

कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय
इम्फाल : मणिपुर

अध्यादेश
इम्फाल, 19 नवंबर, 2005
2005 का सं. 1

सं केकृवि/रजि/584/अध्या/05 : जबकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने अपने 5-8/2005 सी.ए.यू. दिनांक 11.11.2005 के तहत विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षिक पदों को भरने के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हतायें निर्धारित करने संबंधी अध्यादेश को जारी करने / बनाने को स्वीकृति दे दी है।

अतः केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 (1992 का सं.40) की धारा 27 की उप धारा (1) के खण्ड (एन) , (ओ) तथा (क्यू) के साथ पठित उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मैं, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल का कुलपति, विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिये जैसा कि प्रत्येक पद के सामने दिया गया है, निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताओं को निर्धारित करता हूँ।

क.	पद	अर्हतायें
(1)	(2)	(3)
1	रजिस्ट्रार	अनिवार्य सीधी भर्ती के लिये (i) न्यूनतम 55 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री

अथवा इसके समकक्ष ग्रेड और

(ii) सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष/ सह प्रोफेसर अथवा समकक्ष के रूप में न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव जिसमें 8 वर्ष का सह प्रोफेसर अथवा समकक्ष ग्रेड में शैक्षिक प्रशासन का अनुभव हो। अथवा

अनुसंधान संस्थापनाओं एवं उच्च शिक्षा के अन्य संस्थाओं में तुल्य अनुभव; अथवा

15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें 8 वर्ष का उप रजिस्ट्रार या समतुल्य के रूप में अनुभव हो।

यदि न मिले तो प्रतिनियुक्ति :

यदि भा. प्र. से. का अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है तो उसकी 9 वर्षों की सेवा पूरी हो गई हो।

2. नियंत्रक

अनिवार्य :

सीधी भर्ती के लिये

(क) चाटर्ड अकाउन्टेंट अथवा

(i) न्यूनतम द्वितीय श्रेणी का स्नातक या स्नातकोत्तर ; और

(ii) भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक/ राज्य वित्त विभाग/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद. द्वारा आयोजित एस ए एस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिये।

(ख) वित्तीय प्रबन्धन /प्रशासन में पर्यवेक्षक के रूप में 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिये जिसमें उसे 5 वर्षों का अनुभव सरकारी कार्यालय /संस्था में लेखा अधिकारी/उप रजिस्ट्रार या समकक्ष का हो। विश्वविद्यालय के अनुभव को वरीयता।

यदि न मिले तो प्रतिनियुक्ति :

यदि भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा सेवा के अधिकारी को नियंत्रक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है तो उसकी 9 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिये ।

3. सहायक प्रोफेसर
(कंप्यूटर विज्ञान)

अनिवार्य :

(i) भारतीय विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री जिसमें पारंपरिक व्यवस्था में न्यूनतम 55% अंक या उत्तम शैक्षिक रिकार्ड सहित 4 बिंदू मापक में 2.75 या 10 बिंदू मापक में 7 समग्र ग्रेड बिंदू औसत हो ।

या

बी. एस. सी. या बी. एस. सी. (कृषि) के बाद कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर की डिग्री ।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित सहायक प्रोफेसर /व्याख्याता हेतु नेट या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य समान परीक्षा उत्तीर्ण हो (यदि नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी न हों तो छूट मिल सकती है) तथापि , ऐसे अभ्यर्थी को 3 वर्ष में नेट उत्तीर्ण करना होगा ।

एस एन पुरी
कुलपति

अध्यादेश
इम्फाल, 19 नवंबर, 2005
2005 का सं. 2

सं. कें. कृ. वि. /रजि./584/अध्या./05 : जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय योजना की स्वीकृति के संबंध में अनुशेष सहित अनुमोदित व्यय वित्त समिति ज्ञापन में जैसा कि संयुक्त सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग एवं सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के दिनांक 13 अक्टूबर, 1993 के पत्र संख्या 1 (2)/92-पी. आई. एण्ड एम. (पार्ट-III) के तहत सूचित किया गया है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के संघटक महाविद्यालय के रूप में सिविकम में कृषि अभियांत्रिकी एवं लवनोपरांत प्राद्यौगिकी महाविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है और जबकि दसवीं योजना प्रस्ताव के लिये प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति कृ.अ.शि.वि. के कमशः दिनांक 4.3.05 के पत्र संख्या 5.4/2002 सी.ए.यू एवं दिनांक 18.3.05 के 5.4/2002 सी.ए.यू के तहत सूचित कर दी गयी है।

और जबकि सिविकम सरकार ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के संघटक महाविद्यालय के रूप में कृषि अभियांत्रिकी एवं लवनोपरांत प्राद्यौगिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु मारचक, सिविकम में भूमि हस्तांतरित कर दी है।

और जबकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने अपने पत्रांक 5-8/2005 सी.ए.यू दिनांक 11.11.2005 के तहत केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के संघटक महाविद्यालय के रूप में सिविकम में कृषि अभियांत्रिकी एवं लवनोपरांत प्राद्यौगिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिये अध्यादेश जारी करने/बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसलिए अब केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 (1992 का 40) की धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (के) एवं (ओ) के साथ पठित धारा 5 और उपधारा (2) खण्ड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मैं, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल का कुलपति केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में मारचक, सिक्किम में कृषि अभियांत्रिकी एवं लवनोपरांत प्राद्यौगिकी महाविद्यालय की स्थापना और प्रबंध का प्रथम अध्यादेश निम्नलिखित प्रावधानों के साथ बनाता एवं अधिसूचित करता हूँ।

1. मारचक, सिक्किम में कृषि अभियांत्रिकी एवं लवनोपरांत प्राद्यौगिकी महाविद्यालय होगा (इसके बाद उक्त महाविद्यालय के नाम से उल्लिखित) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल का संघटक महाविद्यालय होगा।
2. कि मारचक, सिक्किम में स्थापित कृषि अभियांत्रिकी एवं लवनोपरांत प्राद्यौगिकी महाविद्यालय (इसके बाद उक्त महाविद्यालय के नाम से उल्लिखित) समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये संविधि, अध्यादेश एवं विनियम द्वारा चलाया जायेगा।
3. कि कथित महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा यथा स्वीकृत पाठ्यक्रम सहित कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक का कार्यक्रम चलाएगा।
4. कि महाविद्यालय में प्रारंभ में भा. कृ. अ. प. द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों सहित 30 (तीस) विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता होगी जो यथावधि में 40 तक बढ़ायी जा सकती है। भा. कृ. अ. प. एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों

को सीटों का आबंटन निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा जैसा कि के. कृ. वि. के अधिनियम में निर्धारित है।

1.	अरुणाचल प्रदेश	4
2.	मणिपुर	6
3.	मेघालय	5
4.	मिजोरम	3
5.	सिक्किम	2
6.	त्रिपुरा	6
7.	भा. कृ. अ. प.	4

कुल 30

5. एकत महाविद्यालय में चार विभाग होंगे जैसा कि निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट है और तालिका की सदृश प्रविष्टि में डीन प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर होंगे जैसा कि विनिर्दिष्ट है।

क्र.	विभाग	प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	सहायक प्रोफेसर	कुल योग
1.	डीन	1	—	—	1
2.	मौलिक विज्ञान एवं मानव शास्त्र	1	5	6	12
3.	फार्म मशीनरी एवं उर्जा	1	3	7	11
4.	मृदा एवं जल अभियांत्रिकी	1	3	7	11
5.	लवनोपरांत प्राद्यौगिकी	1	3	7	11
	कुल	5	14	27	46

यह अध्यादेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

एस एन पुरी
कुलपति

अध्यादेश
इम्फाल, 19 नवंबर, 2005

2005 का सं. 3

सं. कें. कृ. वि. /रजि./584/अध्या./05/ जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय योजना की स्वीकृति में जैसा कि संयुक्त सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग एवं सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के दिनांक 13 अक्टूबर, 1993 के पत्र संख्या 1(2)/92-पी. आई. एण्ड एम. (पार्ट-III) के तहत सूचित किया गया है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है जिसका मुख्यालय इम्फाल में होगा और जबकि दसवीं योजना प्रस्ताव के लिये प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति कृ.अ.शि.वि. के क्रमशः दिनांक 4.3.05 के पत्र संख्या 5.4/2002 सी.ए.यू. एवं दिनांक 18.3.05 के 5.4/2002 सी.ए.यू. के तहत सूचित कर दिया गया है।

और जबकि उक्त स्वीकृति में शैक्षिक एवं वैज्ञानिक दोनों पदों जैसे अनुसंधान निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशक, अनुदेश निदेशक, उपनिदेशक (अनुसंधान), उपनिदेशक (प्रसार शिक्षा) तथा उपनिदेशक (अनुदेश) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रेडों में इनके समकक्ष शैक्षिक पदों के सृजन एवं भरे जाने का भी प्रावधान है।

और जबकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने अपने पत्रांक 5-8/2005 सी.ए.यू. दिनांक 11.11.2005 के अनुसार केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक एवं वैज्ञानिक पदों के सृजन एवं पदों के भरे जाने के लिये अध्यादेश जारी करने/बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसलिये अब केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 (1992 का 40) की धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (एन) तथा (क्यू) के साथ पठित धारा 5 के खण्ड (दस) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल का कुलपति, उक्त विश्वविद्यालय में उपर्युक्त पदों का, जैसा कि परिशिष्ट-I और परिशिष्ट-II में दिया गया है, सृजन करता हूँ।

एस एन पुरी
कुलपति

परिशिष्ट-I

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल में शैक्षिक एवं वैज्ञानिक पद।

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1.	अनुसंधान निदेशक	1	समूह -क	16400-450-22400 रु.
2.	अनुदेश निदेशक	1	समूह -क	16400-450-22400 रु.
3.	प्रसार शिक्षा निदेशक	1	समूह -क	16400-450-22400 रु.

परिशिष्ट-II

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल में शैक्षिक एवं वैज्ञानिक पद।

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1.	उपनिदेशक (अनुसंधान)	2	समूह -क	12000-420-18300 रु.
2.	उपनिदेशक (अनुदेश)	2	समूह -क	12000-420-18300 रु.
3.	उपनिदेशक (प्रसार शिक्षा)	2	समूह -क	12000-420-18300 रु.

एस एन पुरी
कुलपति

भारतीय भेषजी परिषद्

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 6 फरवरी 2006

सं. 17-1/2006-पी.सी.आई.-15296-442--

भारतीय भेषजी परिषद् के 76 वें केन्द्रीय अधिवेशन दिनांक 20 और 21 जनवरी, 2006 में पारित संकल्पों को भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 15 में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

भेषजी डिप्लोमा

प्रस्ताव संख्या 76सी.सी./पी.सी.आई./1371

“(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मैसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मैसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं शैक्षणिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :-

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
--------------	---------------	-----------------------------------	------------------	--------------------------

आन्ध्र प्रदेश

6/17-630/2005-पी.सी.आई.

मालिनेनी लक्ष्मेह कॉलेज ऑफ फार्मैसी,
कनुमल्ला पोस्ट, सिंगारायाकोन्डा,
प्रकाशम (डिस्ट्रिक्ट) - 523 101.

60

2003-2004 से
2005-2006 तक

सचिव
तकनीकी शिक्षा एवं
प्रशिक्षण राज्य समिति,
बी.आर.के.आर. भवन,
7 वां तल, दैक बन्द मार्ग,
हैदराबाद - 500 063.

7/17-620/2003-पी.सी.आई.

कोरिंगा कॉलेज ऑफ फार्मैसी,
कोरंगी विलेज - 533 461,
तालारेवू मण्डल, ई.जी. डिस्ट्रिक्ट

60

2003-2004 से
2005-2006 तक

- उपरोक्त -

9/17-585/2003-पी.सी.आई.

एस.आर.आर. कॉलेज ऑफ
फार्मास्यूटिकल साइंसिज, वल्भापुर (वी),
इल्काथूरथी (मिडिल),
डिस्ट्रिक्ट करीमनगर - 505 476.

60

2003-2004 से
2005-2006 तक

- उपरोक्त -

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
10/17-605/2004-पी.सी.आई.	हिन्दू कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अमरावती रोड, गुन्दूर - 522 002.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी.आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
11/17-595/2003-पी.सी.आई.	जी. पुल्ला रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मेहंदीपतनम, हैदराबाद - 500 028.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
15/17-594/2003-पी.सी.आई.	सारदा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, कोन्डा कावूरु (पोस्ट), नारासारावपैट (मण्डल) - 522 602, गुन्दूर डिस्ट्रिक्ट	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
16/17-536/98-पी.सी.आई.	बापातला कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बापातला - 522 101, गुन्दूर डिस्ट्रिक्ट	60	2007-2008	- उपरोक्त -
17/17-26/94-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट पॉलिटैकनिक विशाखापट्टनम - 530 007.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
18/17-604/2004-पी.सी.आई.	जनगाँव इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, यशवंतपुर, जनगाँव, डिस्ट्रिक्ट वारंगल	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
19/17-274/94-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट पॉलिटैकनिक फॉर वूमैन, कडापा - 516 002.	60	2005-2006	- उपरोक्त -
222/17-283/2005-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट पॉलिटैकनिक फॉर वूमैन, हिन्दूपुर - 515 202.	50	2005-2006	- उपरोक्त -
223/17-29/2005-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट पॉलिटैकनिक, मसाब टैंक, हैदराबाद - 500 028.	60	2006-2007	- उपरोक्त -

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
224/17-179/2003-पी.सी.आई.				
	के.ई.एस. पॉलिटैकनिक फॉर वूमैन, पी.डब्ल्यू.डी. ग्राउण्ड्स, विजयवाड़ा - 520 002.	60	2007-2008	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी.आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
238/17-581/2003-पी.सी.आई.				
	रघुवेन्द्र इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, साईग्राम कृष्णमरेड्डीपल्ली कास, चियेडू (पी.ओ.), अनन्तपुर - 515 721.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
असम				
21/17-292/95-पी.सी.आई.				
	इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, गुवाहाटी मैडिकल कॉलेज, नारायणचल हिल टॉप, गुवाहाटी - 781 032.	60	2007-2008	निदेशक तकनीकी शिक्षा काहिलीपारा गुवाहाटी - 781 019.
बिहार				
22/17-95/99-पी.सी.आई.				
	बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, न्यू बैली रोड, दानापुर, पटना - 801 503.	60	2005-2006	अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक (भेषजी डिप्लोमा) स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, पटना - 800 001.
छत्तीसगढ़				
23/17-590/2005-पी.सी.आई.				
	श्रीमती एस.एल. त्रिवेदी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, गुरु घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर - 495 009.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	निबन्धक गुरु घासी दास विश्वविद्यालय बिलासपुर - 495 009.
गुजरात				
24/17-151/96-पी.सी.आई.				
	ए.आर. कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड जी.एच. पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पोस्ट बॉक्स नम्बर 19, वल्लभ विद्यानगर - 388 120.	60	2005-2006	निबन्धक, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नम्बर 10, वल्लभ विद्यानगर-388 120 डिस्ट्रिक्ट खेड़ा
178/17-61/95-पी.सी.आई.				
	बी.के. मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज पॉलीटेकनिक कैम्पस, नियर अजि डैम, भावनगर रोड राजकोट - 360 003.	60	2005-2006	निबन्धक, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, कलावद रोड, राजकोट - 360 005.

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
179/17-7/2005-पी.सी.आई.	एल. एम. कॉलेज ऑफ फार्मेसी पी.बी. नम्बर 4011, ऑपोजिट गुजरात यूनिवर्सिटी नवरंगपुरा अहमदाबाद - 380 009.	120	2009-2010	निबन्धक, गुजरात विश्वविद्यालय, नवरंगपुरा अहमदाबाद - 380 009.

हरियाणा

26/17-34/98-पी.सी.आई.	डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, पं० बी०डी० शर्मा पोस्टग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिज, रोहतक - 124 001.	60	2005-2006	निबन्धक, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक - 124 001.
27/17-164/94-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, मण्डी आदमपुर, (हिसार) - 125 052.	45 (दाखिलों में वृद्धि 40 से 45 की, 2004-2005 शैक्षणिक सत्र से)	2007-2008	निदेशक राज्य तकनीकी शिक्षा समिति हरियाणा, एस.सी.ओ.संख्या 38-39 सैक्टर - 17-ए चण्डीगढ़-160 017. (केन्द्र शासित प्रदेश)
30/17-394/98-पी.सी.आई.	देहात विकास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तिगाँव (फरीदाबाद)	60	2005-2006	- उपरोक्त -

झारखण्ड

31/17-410/2005-पी.सी.आई.	रांची कॉलेज ऑफ फार्मेसी बी.आई.एम.एम.एस. कैम्पस, प्रेम नगर (हिसाग), हाटिया, रांची - 834 003.	60	2005-2006	अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक (भेषजी डिप्लोमा) स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, पटना - 800 001.
--------------------------	--	----	-----------	---

कर्नाटक

32/17-450/94-पी.सी.आई.	श्री वीरभद्रेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हुमनाबाद - 585 330, डिस्ट्रिक्ट बीदर	60	2005-2006	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, कर्नाटक राज्य तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
------------------------	---	----	-----------	---

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
33/17-447/2003-पी.सी.आई.	दी ऑक्सफोर्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सी०ए० साईट नम्बर 40, फर्स्ट फेस, जे०पी० नगर, बंगलौर - 560 078.	60	2005-2006	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, कर्नाटक राज्य तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
34/17-122/2002-पी.सी.आई.	श्री आदिचुनचुनागिरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी बालगंगाधरनाथा नगरा - 571448, नागमंगला तालुक माण्ड्या डिस्ट्रिक्ट	60	2005-2006	- उपरोक्त -
35/17-445/2002-पी.सी.आई.	बासवेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बीदर विद्या केन्द्र, सस्तापुर बंगला बास्वकल्याण - 585 327 डिस्ट्रिक्ट बीदर	60	2005-2006	- उपरोक्त -
36/17-245/2002-पी.सी.आई.	रमण कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नम्बर 107, पाईप लाईन रोड, कुरुबराहल्ली, बंगलौर - 560 086	60	2005-2006	- उपरोक्त -
37/17-440/2001-पी.सी.आई.	ईस्ट वैस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नम्बर 1, वारालक्ष्मी कॉम्प्लैक्स, ऑपोजिट पी०डब्लू०डी० क्वार्टरस, मोनारायना पाल्या, आर०टी० नगर, बंगलौर - 560 032	60	2005-2006	- उपरोक्त -
38/17-69/2002-पी.सी.आई.	के० एल० ई० सोयायटीज सरदार वी०वी० पाटिल स्कूल ऑफ फार्मेसी, सेकण्ड ब्लॉक, राजाजीनगर, पी०बी० नम्बर 1062, बंगलौर - 560 010	60	2007-2008	- उपरोक्त -
39/17-167/2002-पी.सी.आई.	एम०एम०यू० कॉलेज ऑफ फार्मेसी, के० के० डोडी, रमणाग्राम - 571 511, बंगलौर डिस्ट्रिक्ट	60	2007-2008	- उपरोक्त -

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
40/17-138/2003-पी.सी.आई.	बी०एल०डी०ई० एसोशिएसन स्कूल ऑफ फार्मेसी, इंजिनियरिंग कॉलेज कैम्पस, आश्रम रोड़, बीजापुर - 586 103	60	2005-2006	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, कर्नाटक राज्य तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
41/17-43/2003-पी.सी.आई.	अकैडमी ऑफ मैडिकल एजुकेशन, वी०एल० कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मानिक प्रभु टैम्पल रोड़, रायचूर - 584 103	80	2007-2008	- उपरोक्त -
42/17-153/93-पी.सी.आई.	लुकमान कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पोस्ट बॉक्स नम्बर 86, ओल्ड जेवारगी रोड़, बिहाईन्ड पी एण्ड टी कॉलोनी, गुलबर्गा - 585 102	60	2005-2006	- उपरोक्त -
43/17-472/2001-पी.सी.आई.	श्री वेंकटेश्वर सी०के० इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नम्बर 999, फर्स्ट क्रॉस, के.एच.बी. रोड़, कावल ब्रासन्दा न्यू एक्सपैन्शन, आर०टी० नगर, बंगलौर - 560 032 (पहले नम्बर 27, सेकण्ड क्रॉस आदर्श नगर, मानारायानापाल्था, आर०टी० नगर पोस्ट, बंगलौर-560 032 पर स्थित था)	60	2005-2006	- उपरोक्त -
44/17-238/95-पी.सी.आई.	वी० वी० संघ टोगरी वीरमल्लपा ममोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गाँधीनगर, बेलारी - 583 103.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
45/17-239/2003-पी.सी.आई.	श्री रामाकृष्ण कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ज्योतिनगर, (नैक्सट टू चिकमगलूर कॉफी क्यूरींग वर्क्स), चिकमगलूर - 577 102.	60	2005-2006	- उपरोक्त -

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
226/17-190/90-पी.सी.आई.	मिलिंद इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जे.सी. नगर, डब्लू.सी. रोड, पाईप लाईन रोड महालक्ष्मीपुरम पोस्ट, बंगलौर - 560 086.	60	2005-2006	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, कर्नाटक राज्य तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
242/17-74/99-पी.सी.आई.	बी.ई.ए. स्कूल ऑफ फार्मेसी एस. एस. लेआउट, शमानूर रोड देवनगेरे - 577 004.	60	2005-2006	- उपरोक्त -
243/17-393/2004-पी.सी.आई.	एच.एम.एस. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एच.एम.एस. एजुकेशन सोसायटी कैम्पस, शेड्टीहल्ली रोड, तुमकूर - 572 102.	60	2005-2006	- उपरोक्त -
261/17-140/2004-पी.सी.आई.	सेशाद्रिपुरम कॉलेज ऑफ फार्मेसी नम्बर 27, नागाप्पा स्ट्रीट, सेशाद्रिपुरम बंगलौर - 560 020.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
केरल				
46/17-226/2005-पी.सी.आई.	फातिमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मलिक दीनार कॉम्प्लेक्स, किलीकोलूर पी०ओ०, कोलाम - 691 004.	120	2001-2002	अध्यक्ष भेषजी डिप्लोमा परीक्षा समिति, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, मार्फत भेषजी विज्ञान महाविद्यालय, डाकघर चिकित्सा महाविद्यालय, थिरुवनन्थापुरम-695 011.
245/17-516/99-पी.सी.आई.	जे.डी.टी इस्लाम कॉलेज ऑफ फार्मेसी पी.बी. नम्बर 1702, जमैथ हिल, मालाबार, कालिकट - 673 012.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
मध्य प्रदेश				
181/17-645/2004-पी.सी.आई.	स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज कैम्पस, बारखेरी कला, नीलबाद रोड, पी.ओ. सूरज नगर, भोपाल - 462 044.	60	2005-2006	सचिव राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र				
47/17-197/2005-पी.सी.आई.	श्रीमती कुसुमताई वानखेडे इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, काटोल - 441 302 (डिस्ट्रिक्ट नागपुर)	60	2007-2008	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यादव जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
48/17-622/2004-पी.सी.आई.	श्री महावीर एजुकेशन सोसायटीज श्री महावीर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, 166 महासरूल-वारवन्डी रोड नासिक - 422 002.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
49/17-37/2004-पी.सी.आई.	प्रिंसिपल के० एम० कुन्दनानीज फार्मेसी पॉलिटैकनिक, ऑपोजिट रेलवे स्टेशन, उल्लासनगर - 421 003.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
50/17-145/99-पी.सी.आई.	जे०बी०एस०पी० मण्डलस इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, शिवाजीनगर, (गदही) जिओराई - 431 127 डिस्ट्रिक्ट बीद	60	2007-2008	- उपरोक्त -
51/17-613/2004-पी.सी.आई.	समर्थ एजुकेशनल ट्रस्ट सावकर फार्मेसी कॉलेज, जैतापुर, ताल्लुक एण्ड डिस्ट्रिक्ट सतारा - 415 004.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
52/17-607/2004-पी.सी.आई.	जय महाकाली शिक्षण संस्थाज अग्निहोत्री इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, अग्निहोत्री कॉलेज कैम्पस, बापूजी वादी, सिन्धी (मेघे), वर्धा - 442 001.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
53/17-116/2005-पी.सी.आई.	इन्स्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, वानाडोंगरी, हिंगना रोड, नागपुर - 441 110	60	2007-2008	- उपरोक्त -

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
54/17-609/2004-पी.सी.आई.	जयवंत इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, एस. नम्बर. 80, पुणे-मुम्बई बाईपास हाईवे, ताठावाडे, पुणे - 411 033.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
55/17-204/2002-पी.सी.आई.	आपासाहेब बिरनाले कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सांगली - मिराज रोड, साउथ शिवाजीनगर, सांगली - 415 416.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
57/17-587/2005-पी.सी.आई.	श्री गजानन महाराज शिक्षण प्रसारक मण्डलस शरदचन्द्र पवार इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ए/पी ओदूर, ताल्लुक : जूनार, डिस्ट्रिक्ट पुणे	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
58/17-624/2004-पी.सी.आई.	खांडेश एजुकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नियर रेलवे स्टेशन, आमलनेर - 425 402, डिस्ट्रिक्ट जलगाँव	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
59/17-612/2004-पी.सी.आई.	आर.एम.पी. बालचन्द्र इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, शिकागो हिल्स, गोरहे (के डी), पानशेट रोड, पोस्ट खानपुर, ताल्लुक हवेली, डिस्ट्रिक्ट पुणे - 411 042.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
60/17-148/2000-पी.सी.आई.	श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसायटीज नानडेड फार्मेसी कॉलेज (पॉलीटेकनिक), ऑपोजिट कस्तूरबा मातृ सेवा केन्द्र, श्याम नगर, नानडेड - 431 605.	60	2005-2006	- उपरोक्त -

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
62/17-56/2002-पी.सी.आई.	इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्डस्ट्रीयल एण्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, पंचवटी, मुम्बई-आगरा रोड, नासिक - 422 003.	60	2007-2008	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
63/17-625/2004-पी.सी.आई.	जगदम्बा एजुकेशन सोसायटीज एस.एन.डी. डिप्लोमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी ए/पी बहुलगाँव, ताल्लुक योला, डिस्ट्रिक्ट नासिक - 423 401.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
64/17-626/2004-पी.सी.आई.	डॉ० जे०जे० मगदुम ट्रस्ट अनिल एलियास पिन्दू मगदुम ममोरियल, फार्मेसी कॉलेज, धरनगुदटी, ताल्लुक शिरोल, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
65/17-9/99-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, नेशनल हाईवे नम्बर 6, जिल्हा पेठ, जलगाँव - 425 002.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
66/17-20/98-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विद्यानगर, कराड - 415 124, डिस्ट्रिक्ट सतारा	60	2005-2006	- उपरोक्त -
70/17-400/2005-पी.सी.आई.	रवि बहुउद्देश्य शैक्षणिक संस्थाज रवि इन्स्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, महादुला, देवी रोड, कोराडी, ताल्लुक काम्पटी, डिस्ट्रिक्ट नागपुर (पहले ग्रेट नाग रोड, सिरसपैठ, रेशीमबाग, नागपुर - 440 009 पर स्थित था)	60	2005-2006	- उपरोक्त -
71/17-623/2004-पी.सी.आई.	श्री गुलाबराव दिओकर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एण्ड रिसर्च सेंद्र, सेकण्ड फ्लोर, नियर डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर मार्केट, जलगाँव - 425 001.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
72/17-388/98-पी.सी.आई.	पूना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोशिएशन सेठ गोविन्द रघुनाथ साबले कॉलेज ऑफ फार्मेसी (पॉलिटेक्निक) ए/पी. सखाद, ताल्लुक पुरन्दर, डिस्ट्रिक्ट पुणे - 412 301.	60	2007-2008	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
73/17-222/2002-पी.सी.आई.	एम.ए.एच. कॉलेज ऑफ फार्मेसी बोराडी, ताल्लुक शिरपुर, डिस्ट्रिक्ट धूले	60	2007-2008	- उपरोक्त -
74/17-276/97-पी.सी.आई.	जालना एजुकेशन सोसायटीज इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जे.ई.एस. कॉलेज कैम्पस, जालना - 431 203.	60	2005-2006	- उपरोक्त -
75/17-610/2004-पी.सी.आई.	वसंतीदेवी पाटिल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, कोडोली, ताल्लुक-पानहाला डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर - 416 114.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
77/17-209/99-पी.सी.आई.	विद्या भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सी०के० नायडू मार्ग, कैम्प, अमरावती - 444 602.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
78/17-601/2004-पी.सी.आई.	विशाल जूनार सेवा मण्डलस इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी फॉर वूमैन, अले - 412 411, ताल्लुक जूनार डिस्ट्रिक्ट पुणे	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
79/17-545/98-पी.सी.आई.	गनोहरभाई पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, विलेज-कुदवा, पोस्ट बॉक्स 44, गोन्डिया - 441 614.	60	2005-2006	- उपरोक्त -
82/17-635/2004-पी.सी.आई.	श्री जैन विद्या प्रसारक मण्डलस श्री फतेचन्द जैन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आचार्य आनन्द रुशिजी मार्ग, टेलको रोड, डी-II, 60-61, चिन्चवड एम.आई.डी.सी., पुणे - 411 019.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
83/17-637/2004-पी.सी.आई.	इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी (डिप्लोमा), 2390-बी, के०बी० हृदायतुला रोड़, आजम कैम्पस, कैम्प, पुणे - 411 001.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
183/17-640/2004-PCI	जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मोलगी रोड़, जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम, अक्कालकुआ डिस्ट्रिक्ट नन्दूरबार - 425 415.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
249/17-63/98-PCI	कमला नेहरू पॉलिटेक्निक (फार्मेसी) पी.बी. नम्बर 65, रोजा बाग, औरंगाबाद - 431 001.	120	2006-2007	- उपरोक्त -
250/17-417/2005-PCI	राजर्षि शाहू छत्रपति इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, 2968 सी, दशरा चौक, कोल्हापुर - 416 002.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
251/17-653/2004-PCI	प्रियदर्शनी यशोधरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शास्त्री नगर, मुल रोड़, चन्द्रपुर - 442 401.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
252/17-650/2004-PCI	कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एट-जवालवादी, पोस्ट मेधा, ताल्लुक जौली, डिस्ट्रिक्ट सतारा	60	2007-2008	- उपरोक्त -
253/17-476/98-PCI	सीताबाई थिटे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शिरूर (घोदनाड़ी) - 412 210. डिस्ट्रिक्ट पुणे	60	2007-2008	- उपरोक्त -
उड़ीसा				
84/17-304/95-पी.सी.आई.	दी फार्मास्यूटिकल कॉलेज, सामालेश्वरी विहार, टिंगीपाली, बारपाली, डिस्ट्रिक्ट बारगढ़ - 768 029.	60	2007-2008	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य फार्मेसी समिति, (औषधि नियंत्रक निदेशालय भवन) डाकघर मानचेश्वर, रेलवे कॉलोनी भुवनेश्वर - 751 017

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
85/17-330/96-पी.सी.आई.	गायत्री कॉलेज ऑफ फार्मसी, गायत्री विहार, जमादारपाली, वाया - सासोन, सम्बलपुर - 768 101.	60	2007-2008	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य फार्मसी समिति, (औषधि नियंत्रक निदेशालय भवन) डाकघर मानचेश्वर, रेलवे कॉलोनी भुवनेश्वर - 751 017.
86/17-196/2003-पी.सी.आई.	सिद्धेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एट/पी.ओ. अमरदा रोड़, डिस्ट्रिक्ट बालासोर - 756 030.	60	2005-2006	- उपरोक्त -
87/17-193/93-पी.सी.आई.	कनक मंजरी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एट/पी.ओ. छिन्ड, राउरकेला - 769 015, डिस्ट्रिक्ट सुन्दरगढ़	60	2005-2006	- उपरोक्त -
88/17-618/2002-पी.सी.आई.	इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, श्रीकान्तपुर (नियर रानीपटना) पोस्ट/डिस्ट्रिक्ट बालासोर-760 030.	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
89/17-331/2005-पी.सी.आई.	कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एट/बिन्दानिकेतन, मेरिन ड्राईव रोड़, पी०ओ०:बालीगौली, डिस्ट्रिक्ट पुरी - 752 002.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
91/17-482/95-पी.सी.आई.	वोमैन्स पॉलीटेक्निक, एट/पी.ओ. चन्द्रशेखरपुर, नियर जैविअर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर - 751 023.	40 (दाखिलों में वृद्धि 30 से 40 की, 2005-2006 शैक्षणिक सत्र से)	2005-2006	सदस्य सचिव तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण राज्य परिषद्, चन्द्रशेखरपुर कटक - 751 001.
पंजाब				
92/17-40/2005-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वूमैन, लाडवाली रोड़, जालन्धर सिटी - 144 001.	30	2005-2006	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण समिति प्लॉट नम्बर 1-ए, सेक्टर 36-ए, चण्डीगढ़

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
93/17-396/99-पी.सी.आई.	आदेश पॉलिटैकनिक, विलेज मारह मल्लू सादिक, फिरोजपुर रोड़, मुक्तसर - 152 026.	60	2005-2006	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण समिति प्लॉट नम्बर 1-ए, सैक्टर 36-ए, चण्डीगढ़
94/17-289/2004-पी.सी.आई.	लोगोवाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज रोड़, शक्ति नगर, डेराबस्सी, डिस्ट्रिक्ट पटियाला - 140 507.	60	2004-2005 और 2005-2006 के लिए	- उपरोक्त -
95/17-290/2002-पी.सी.आई.	शहीद भगत सिंह पॉलीटेकनिक एण्ड फार्मेसी कॉलेज, पट्टी - 143 416.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
96/17-616/2004-पी.सी.आई.	रायत पॉलीटेकनिक, विलेज एण्ड पी० ओ० रेल माजरा, (नियर रोपड़) तहसील : बालाचौर, डिस्ट्रिक्ट नावनशहर - 144 533	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
97/17-617/2004-पी.सी.आई.	लवली इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, जालन्धर-लुधियाना जी०टी० रोड़, नियर चेहरू रेलवे ब्रिज, फगवाड़ा - 144 001	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	- उपरोक्त -
99/17-260/2002-पी.सी.आई.	एस० डी० कॉलेज ऑफ फार्मेसी,, बरनाला - 148 101	60	2007-2008	- उपरोक्त -
100/17-507/2002-पी.सी.आई.	बाबा ईश्वर सिंह पॉलिटैकनिक, धर्मकोट रोड़ (मोगा), कोट-ईसे-खान - 142 043	60	2007-2008	- उपरोक्त -
राजस्थान				
101/17-223/93-पी.सी.आई.	लाच्छू ममोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी फार्मेसी विंग, सैक्टर - ए, शास्त्री नगर, जोधपुर - 342 003	60	2007-2008	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर - 302 004. (2002-2003 तक) निबन्धक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर (राजस्थान) (2003-2004 से)

मेसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
102/17-207/99-पी.सी.आई.	नेहरू ममोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी हनुमानगढ़ टाउन - 335 513	60	2007-2008	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर - 302 004.
103/17-535/2003-पी.सी.आई.	श्री बजरंग कॉलेज ऑफ फार्मेसी दीग (भरतपुर) - 321 203	60	2007-2008	- उपरोक्त -
104/17-348/99-पी.सी.आई.	महर्षि अरविन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अम्बाबारी, अम्बाबारी सर्कल, जयपुर - 302 023	60	2005-2006	- उपरोक्त -
105/17-201/2001-पी.सी.आई.	भूपाल नोबल्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओल्ड स्टेशन रोड, उदयपुर - 313 001	60	2007-2008	निबन्धक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर
189 17-586/2003-पी.सी.आई.	अग्रवाल फार्मेसी कॉलेज, नियर शिव कॉलोनी, (पी.ओ.) मेड़ता सिटी - 341 510	79 39 60	2003-2004 के लिए 2004-2005 के लिए 2005-2006 के लिए	निबन्धक महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर - 305 001

तमिलनाडू

110/17-188/2003-पी.सी.आई.	कोयुम्बटूर मैडिकल कॉलेज, कोयुम्बटूर - 641 014	60	2005-2006	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, पूनामल्ली हाई रोड किल्पाक, चेन्नई - 600 010.
111/17-469/2001-पी.सी.आई.	नन्दा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 29/4-कोरापालायाम पिरिवू, पिचन्दम्पालायाम पोस्ट, इरोड - 638 052	60	2005-2006	- उपरोक्त -
113/17-174/2003-पी.सी.आई.	थंजावूर मैडिकल कॉलेज, थंजावूर - 613 004.	60	2005-2006	- उपरोक्त -

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
115/17-479/2002-पी.सी.आई.	एस.आर.एम. कॉलेज ऑफ फार्मसी एस.आर.एम. नगर कट्टनकुलाथूर - 603 303 कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट	60	2007-2008	निबन्धक एस.आर.एम. विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) एस.आर.एम. नगर कट्टनकुलाथूर- 603 203 कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट (2005-2006 से और आगे डी.फार्म और बी.फार्म दोनों के लिए) पूर्व में संबंधन था (डी.फार्म के लिए) निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, पुनामल्ली हाई रोड किल्पोक, चेन्नई - 600 010. (बी.फार्म के लिए) निबंधक, दी तमिल नाडू डॉ. एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नम्बर 69 (पुराना नं० 40) पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
उत्तर प्रदेश				
116/17-259/2005-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, आगरा रोड़, लखीमपुर-खेरी - 262 701.	40	2005-2006	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, उत्तर प्रदेश लखनऊ - 226 001.
117/17-556/99-पी.सी.आई.	गोपीचन्द कॉलेज ऑफ फार्मसी, अहेरा, बागपत - 250 609.	60	2007-2008	- उपरोक्त -
118/17-13/2004-पी.सी.आई.	डिपार्टमेंट ऑफ फार्मसी, जी.एस.वी.एम.मैडिकल कॉलेज, कानपुर - 208 002..	60	2005-2006	सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय 5, सर्वपल्ली, माल ऐवन्यू रोड़ लखनऊ - 226 001.

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
उत्तरांचल				
120/17-136/2005-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, श्रीनगर-246 174(गढ़वाल), डिस्ट्रिक्ट पौड़ी	40 (दाखिलों में वृद्धि 30 से 40 की, 2005-2006 शैक्षणिक सत्र से)	2007-2008	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, उत्तर प्रदेश लखनऊ - 226 001 (2002-2003 तक) सचिव तकनीकी शिक्षा समिति उत्तरांचल, 37/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 667 जिला हरिद्वार (उत्तरांचल) (2003-2004 से)
190/17-255/96-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, काशीपुर - 244 713 (उधम सिंह नगर)	40 (दाखिलों में वृद्धि 30 से 40 की, 2005-2006 शैक्षणिक सत्र से)	2005-2006	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति उत्तरांचल, 37/3, सिविल लाईन्स, ऑपोजिट शिव मन्दिर रूड़की - 247 667 जिला हरिद्वार (उत्तरांचल)
पश्चिम बंगाल				
121/17-549/99-पी.सी.आई.	कूच बेहार पॉलीटेक्निक, केशव रोड़, कूच बेहार - 736 101	40	2007-2008	सचिव, तकनीकी शिक्षा परिषद् पश्चिम बंगाल राज्य पश्चिम बंगाल सरकार बिकास भवन,(10 वां तल) साल्ट लेक, कोलकाता - 700 091
122/17-583/2001-पी.सी.आई.	कलकत्ता इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एण्ड अलाईड हेल्थ साइंसेज, विलेज एण्ड पी०ओ० - बैनीतबला, यूलूबेरिया, डिस्ट्रिक्ट हावड़ा -711 316	60	2003-2004 से 2005-2006 तक	सचिव, तकनीकी शिक्षा परिषद् पश्चिम बंगाल राज्य पश्चिम बंगाल सरकार बिकास भवन,(10 वां तल) साल्ट लेक, कोलकाता - 700 091

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरणों द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

भेषजी डिग्री

प्रस्ताव संख्या 76सी.सी./पी.सी.आई./1372

“(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं शैक्षणिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :-

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश				
123/32-202/2001-पी.सी.आई.	सरोजिनी नायडू वनीता फार्मेसी महाविद्यालय, मुकरमजाही रोड़, एग्जिबिशन ग्राउण्डस, हैदराबाद - 500 001	60	2007-2008	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद - 500 007
124/32-210/2000-पी.सी.आई.	वागदेवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एच० नम्बर 2-2-457/ए, रामनगर, हनमकोन्डा - 506 001	60	2007-2008	निबन्धक ककालिया विश्वविद्यालय वारंगल - 506 009
125/32-24/94-पी.सी.आई.	सेन्ट पिटरस इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, #2-4-1211, विद्यानगर, हनमकोन्डा - 506 001	60	2007-2008	- उपरोक्त -
129/32-208/2001-पी.सी.आई.	सुल्तान-उल-उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, “माउण्ट प्लैजैन्ट”, 8-2-249, रोड़ नम्बर 3, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद - 506 034.	60 (दाखिलों में वृद्धि 40 से 60 की, 2004-2005 शैक्षणिक सत्र से)	2007-2008	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
231/32-256/2005-पी.सी.आई.	भरत इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंगलपल्ली विलेज इब्राहिमपत्तनम (मण्डल) डिस्ट्रिक्ट रंगा रेड्डी - 501 510.	60	2005-2006	- उपरोक्त -
254/32-253/2001-पी.सी.आई.	मलिनेनी लक्ष्मेह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कनुमल्ला पोस्ट, सिंगारायाकोण्डा, प्रकाशम (डिस्ट्रिक्ट) - 523 101.	60	2006-2007	निबन्धक आचार्य नागार्जुना विश्वविद्यालय, नागार्जुना नगर-522 510.
255/32-241/2003-पी.सी.आई.	डैक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी, जफरगढ़, पी.ओ. कंचनबाग, हैदराबाद - 500 058.	40	2006-2007	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
छत्तीसगढ़				
130/32-235/2002-पी.सी.आई.	श्रीमती एस०एल० त्रिवेदी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय विलासपुर - 495 009.	60	2007-2008	निबन्धक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर - 495 009
दिल्ली				
260/32-27/96-पी.सी.आई.	दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज एण्ड रिसर्च (डिपसर) पुष्प विहार, सैक्टर - 3, नई दिल्ली - 110 017.	60 (दाखिलों में वृद्धि 30 से 60 की, 2004-2005 शैक्षणिक सत्र से)	2006-2007	निबन्धक दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली - 110 007.
गुजरात				
132/32-55/90-पी.सी.आई.	ए. आर. कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड जी.एच. पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पी.बी. नम्बर 19, वल्लभ विद्यानगर - 388 120.	60	2007-2008	निबन्धक सरदार पटेल विश्वविद्यालय पी.बी. नम्बर 100, वल्लभ विद्यानगर-388 120 डिस्ट्रिक्ट खेड़ा
192/32-8/02-पी.सी.आई.	एल. एम. कॉलेज ऑफ फार्मेसी पी.बी. नम्बर 4011, ऑपोजिट गुजरात यूनिवर्सिटी, नवरंगपुरा अहमदाबाद - 380 009.	90	2009-2010	निबन्धक गुजरात विश्वविद्यालय नवरंगपुरा अहमदाबाद - 380 009.
कर्नाटक				
134/32-109/96-पी.सी.आई.	के. एल. ई. सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी राजाजी नगर, पी.बी.नम्बर 1062, बंगलौर - 560 010	60	2009-2010	निबन्धक, राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक, चतुर्थ "टी", ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
135/32-44/95-पी.सी.आई.	लुकमान कॉलेज ऑफ फार्मेसी पोस्ट बॉक्स नम्बर 86, बिहाईड पी. एण्ड टी कॉलोनी जेवारगी रोड, गुलबर्गा - 585 102	60	2007-2008	- उपरोक्त -
136/32-96/2002-पी.सी.आई.	भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी भारतीनागरा - 571 422 मादुर ताल्लुक, माण्ड्या डिस्ट्रिक्ट	60	2007-2008	- उपरोक्त -

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
137/32-141/2005-पी.सी.आई.	श्री के.वी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी एम. जी. रोड चिकबालापुर - 562 101, डिस्ट्रिक्ट कोलार	40	2005-2006	निबंधक, राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक, चतुर्थ "टी", ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
139/32-48/99-पी.सी.आई.	मराठा मण्डलस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 1007, मालमारुति एक्सटेंशन, बेलगाम - 590 016	40	2005-2006	- उपरोक्त -
मध्य प्रदेश				
195/32-168/98-पी.सी.आई.	बी.आर.नहाटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भँवर लाल नहाटा मार्ग, पोस्ट बॉक्स नम्बर 6, मन्दसौर - 458 001.	60	2007-2008	निबंधक, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एअरपोर्ट बाई पास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.
196/32-250/2002-पी.सी.आई.	स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, 4/1, पिपलिया कुमार कक्कड़, मायाखेड़ी रोड, इन्दौर - 452 010.	60	2006-2007	- उपरोक्त -
महाराष्ट्र				
153/32-271/2004-पी.सी.आई.	श्री नेमीनाथ जैन ब्रह्मचार्याश्रमस (जैन गुरुकुल) श्रीमान सुरेशदादा जैन कॉलेज ऑफ फार्मेसी(डिग्री) नेमीनगर, चन्दवाद, डिस्ट्रिक्ट नासिक - 423 101	60	1999-2000 से 2005-2006 तक	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान महाराष्ट्र विश्वविद्यालय आनन्द विहार कॉलोनी, गंगापुर रोड, आनन्दवल्ली, नासिक - 422 005 (2000 तक) निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय गणेशखीण्ड पुणे - 411 007 (2001 से)
155/32-275/2004-पी.सी.आई.	अग्निहोत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अग्निहोत्री कॉलेज कैम्पस, बापूजी वादी, सिन्धी (मेघे), वर्धा - 442 001	60	2007-2008	निबन्धक दी राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक परिसर रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, नागपुर - 440 001

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
156/32-90/98-पी.सी.आई.	सेठ गोविन्द रघुनाथ साबले कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सस्वाद, डिस्ट्रिक्ट पुणे - 412 301	60	2007-2008	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
158/32-10/2000-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विद्यानगर, कराड़ - 415 124, डिस्ट्रिक्ट सतारा	30	2005-2006	निबन्धक शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्या नगर कोल्हापुर - 416 001.
159/32-211/2005-पी.सी.आई.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी होटल वेदान्त रोड़, ऑपोजिट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ओसमानपुरा औरंगाबाद - 431 005	40	2005-2006	निबन्धक डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर औरंगाबाद - 431 004.
197/32-227/2005-पी.सी.आई.	यवातमल जिला विकास समितिज पतालधमल वाधवानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गिरिजा नगर, धमनगाँव रोड़, यवातमल - 445 001.	60	2006-2007	निबन्धक संत गादगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कैम्पस, अमरावती - 444 602.
258/32-80/2001-पी.सी.आई.	वाई.बी. चयान कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पी.ओ. बॉक्स नम्बर 33, रोजा बाग, औरंगाबाद - 431 001.	60	2007-2008	निबन्धक डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर औरंगाबाद - 431 004.

उड़ीसा

232/32-264/2004-पी.सी.आई.	जयपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एट/पी.ओ. रोन्डापाली, जयपुर - 764 002.	60	2001-2002 से 2005-2006 तक	निबन्धक बेरहमपुर विश्वविद्यालय, बेरहमपुर (2001-2002 तक) निबन्धक बीजू पटनायक विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय, यूजीआईईई कौन्सैक्स राउरकेला - 769 014. (2002-2003 से)
---------------------------	--	----	------------------------------	--

पंजाब

163/32-238/2005-पी.सी.आई.	अमर शहीद बाबा अजीत सिंह जूझार सिंह ममोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बेला, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ - 140 111	60 (दाखिलों में वृद्धि 40 से 60 की, 2004-2005 शैक्षणिक सत्र से)	2007-2008	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय आर.ई.सी. कैम्पस, अमृतसर बाई पास, जी.टी. रोड़ जालंधर - 144 001
---------------------------	--	---	-----------	--

मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
164/32-206/2001-पी.सी.आई.	डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस्सिज, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर - 143 005	30	2005-2006	निबन्धक गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर - 143 005

राजस्थान

165/32-56/95-पी.सी.आई.	भूपाल नोबल्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओल्ड स्टेशन रोड, उदयपुर - 313 001	60	2007-2008	निबन्धक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर
259/32-295/2001-पी.सी.आई.	सेट जी.एल. विहानी एस.डी. कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस्सिजएण्ड ड्रग रिसर्च, गगन पेठ, श्री गंगानगर - 335 001.	60	2007-2008	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर- 301 001.

तमिलनाडू

166/32-114/2003-पी.सी.आई.	नन्दा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 29/4-कूरापाल्याम पिरिवू, पिचन्दमपाल्याम पोस्ट इरोड - 638 052	60	2007-2008	निबन्धक, दी तमिल नाडू डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
167/32-119/2005-पी.सी.आई.	महाराजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नम्बर 1, VII एवेन्यू, बसंत नगर, चेन्नई - 600 090	40	2007-2008	- उपरोक्त -

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरणों द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषज के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

अर्चना मुद्गल
निबन्धक-एवं-सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
Mumbai-18, the 24th January 2006

Ref.No.UBD.CO. 1 /16.05.000/ 2005 -06

In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the second schedule to the said Act, namely

For the words "North Kanara GSB Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra"

The Words " NKGSB Co-operative Bank Ltd., Mumbai" shall be substituted.

N. S. VISHWANATHAN
Chief General Manager-in-Charge

THE INSTITUTE OF CHARTERED
ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 3rd February 2006

(Chartered Accountants)

No.1-CA(7)/89)/2006: In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Western India Regional Council at Navi Mumbai with effect from 1st December, 2005.

The Branch shall be known as Navi Mumbai Branch of the Western India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall, besides Navi Mumbai City, include the following cities/towns falling within a radius of 50 kms from the Municipal limits of Navi Mumbai :

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. CBD Belapur | 13. Panvel |
| 2. Nerul | 14. Pen |
| 3. Vashi | 15. Gavanpada |
| 4. Turbhe | 16. Wahal |
| 5. Pavane | 17. Khandeshwar |
| 6. Khairane | 18. Kalamboli R.S. |
| 7. Kopar Khairne | 19. Taloja |
| 8. Gothivli | 20. Mahape |
| 9. Diva | 21. Khalapur |
| 10. Airoli | 22. Karjat |
| 11. Dronagiri | |
| 12. Uran | |

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Western India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

Dr. ASHOK HALDIA
Secy.

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE
CORPORATION**

New Delhi, the 26th December 2005

No.U-16/53/99/PTMR/Mumbai/Med. II: - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Sr. State Medical Commissioner, Mumbai for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
1. Dr. S.R. Karnalkar	1.10.2005 to 30.9.2006	Chalisgaon (Maha)

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner



New Delhi, the 13th January 2006

CORRIGENDUM

No.U-16/53/Karnataka/2003/Med.II:- In partial modification to the Gazette Notification No. 43 published in the official Gazette of India, New Delhi on Saturday, October 22- October 28, 2005 (Asvina 30, 1927) at page No. 2487, Part III, Sec-4. The name of the P.T.M.R may please be read as Dr. D. Sathyanagaraj instead of Dr. P. Sathyanagaraj.

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

New Delhi, the 13th January 2006

No.U-16/53/1/2005/MedIII(Kerala) : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Kerala for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
Dr. Santha Rajendran	30.11.2005 to 29.11.2006	Kannur

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

REGIONAL OFFICE MAHARASHTRA

Mumbai-13, the 23rd January 2006

No. 31-V-34-11/L.Cs./Co-Ordn.

No. 31-V-34-11/L.Cs./Co-Ordn. It is hereby notified that the Local Committee set up vide this office notification No.31-V-34-11 (44) Co-Ordn. dated 8.07.87 for Chalisgaon area under Regulation 10-A-1 of E.S.I. (General) Regulations, 1950 has been re-constituted with the following members with effect from the date of notification.

CHAIRMAN**UNDER REGULATION 10-A-1(a)**

1. The Assistant Labour Commissioner, Govt. of Maharashtra, Chalisgaon.

MEMBERS**UNDER REGULATION 10-A-1(b)**

2. Labour Officer, Govt. of Maharashtra, Jalgaon, Office of the Assistant Labour Commissioner, Rajendra Bhavan, Vivekanand Nagar Zilla Path, Opp. Nagarpalika Bang, Jalgaon.

UNDER REGULATION 10-A-1(c)

3. Administrative Medical Officer, ESI Scheme Govt. of Maharashtra, Pune.
4. Insurance Medical Officer Incharge, ESIS Dispensary, Chalisgaon

UNDER REGULATION 10-A-1(d)

5. Shri Subhash Mohanlal Sharma,
Dy. Manager
Textile Mills, Chalisgaon,
Dist.: Jalgaon.
6. Shri Anand Maruti Jagtap,
Dy. Manager (Safety),
Textile Mills, Chalisgaon,
Dist - Jalgaon

UNDER REGULATION 10-A-1(e)

7. Shri Suresh Hardas Choudhari,
General Secretary,
Rashtriya Mill Mazdoor Sangh,
Chalisgaon,
Dist : Jalgaon
8. Shri Rajendra Keshavnath K. Wade,
President,
Rashtriya Mill Mazdoor Sangh,
Chalisgaon,
Dist : Jalgaon

UNDER REGULATION 10-A-1(f)

9. The Manger, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Chalisgaon

By order

N. PARASURAMAN
Additional Commissioner

**MINISTRY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION
CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY
IMPHAL : MANIPUR**

**O R D I N A N C E
Imphal, the 19 th November, 2005**

No. 1 of 2005

No. CAU/Reg/584/Ord/05. - Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education has approved the issue/making of an Ordinance prescribing the academic and other qualifications for the various administrative and academic positions for the Central Agricultural University vide letter No. 5-8/2005-CAU dated 11.11.2005.

Now, therefore, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with clauses (n), (o) and (q) of sub-section (1) of section 27 of the Central Agricultural University Act, 1992 (40 of 1992) and with the previous approval of Board of Management of Central Agricultural University and Central Government, I, the Vice-Chancellor, Central Agricultural University, Imphal do hereby prescribe the following academic qualifications for the purpose of appointment to various administrative and academic positions as mentioned against respective positions:

Serial Number	Post	Qualification
(1)	(2)	(3)
1.	Registrar	<u>Essential for direct recruitment:</u> (i) A postgraduate degree with at least 55% marks or its equivalent grade; and (ii) at least 15 years of experience as Assistant Professor or equivalent/Associate Professor or equivalent, of which 8 years should be in Associate Professor or equivalent grade with experience in educational Administration ; or comparable experience in research establishments and other institutions of

higher education ;

or

fifteen years administrative experience, of which 8 years experience as Deputy Registrar or an equivalent post .

Failing which Deputation

If an Indian Administrative Service officer is taken on deputation , he should have put in at least 9 years of service.

2. Comptroller

Essential for direct recruitment:

(A) Chartered Accountant ;

or

(i) at least second class graduate or a postgraduate ; and

(ii) must have passed SAS examination held by the Comptroller and Auditor General of India/State Finance Department/Indian Council of Agricultural Research.

B) Must have 12 years experience in a supervisory capacity in financial management/administration out of which, he must have five years experience of Accounts Officer/Deputy Registrar or equivalent in Government office/institution preferably in a University.

Failing which Deputation:

If an officer of the Indian Audit and Accounts service is taken on deputation as a Comptroller, he should have put in at least 9 years experience in that service.

3. Assistant Professor
(Computer Science)

Essential:

(i) Master's degree in Computer Application from a University or equivalent degree from foreign University with at least 55% marks in traditional system or Overall Grade Point Average of 2.75 in 4 point scale or 7 in 10 point scale with consistent good academic record.

or

Bachelor of Science or Bachelor of Science(Agriculture) followed by Master's degree in Computer application .

- (ii) Cleared the National Eligibility Test for Assistant Professor/ Lecturer conducted by University Grants Commission /Council of Scientific and Industrial Research/Indian Council of Agricultural Research or similar test accredited by University Grants Commission (relaxable in case the National Eligibility Test qualified candidates are not available). However, such candidate shall have to clear National Eligibility Test within 3 years.

S. N. PURI
Vice-Chancellor

O R D I N A N C E
Imphal, the 19 th November , 2005

No. 2 of 2005

No. CAU/Reg/584/Ord/05. - Whereas the approved Expenditure Finance Committee Memo along with addendum in respect of the sanction of the Central Agricultural University Scheme under the VIII th Five Year Plan as communicated by the Joint Secretary, Department of Agricultural Research and Education and Secretary, Indian Council of Agricultural Research vide their letter number 1(2)/92-PI and M (Part-III) dated 13th October, 1993 provides for the establishment of a College of Agricultural Engineering and Post harvest Technology in Sikkim as a constituent College of the Central Agricultural University, Imphal

And whereas the administrative approval and financial sanction for X Plan proposal has been communicated by Department of Agricultural Research and Education vide letter no. 5-4/2002-CAU dated 4.3.2005 and 5-4/2002-CAU dated 18.3.2005 respectively.

And whereas the Government of Sikkim has transferred the land measuring 4.6800 hectare at Marchak in Sikkim for establishment of College of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology as a constituent college of the Central Agricultural University, Imphal vide letter no. 83/Ag/Engg dated 23.6.05.

And whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education has approved the issue/making of an Ordinance for the establishment of College of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology in Sikkim as a constituent college of the Central Agricultural University, Imphal vide letter No. 5-8 / 2005-CAU dated 11.11.2005.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (viii) of section 5 and sub-section (2) read with clauses (k) and (o) of sub-section (1) of section 27 of the Central Agricultural University Act, 1992 (40 of 1992) and with the previous approval of the Central Government, I, the Vice-Chancellor, Central Agricultural University, Imphal do hereby make the first ordinance and notify the following provisions for the establishment and management of the College of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology as a constituent College of Central Agricultural University at Marchak in Sikkim namely:-

1. There shall be a College of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology (herein after referred to as the said college) at Marchak in Sikkim, which shall be a constituent college of Central Agricultural University, Imphal
2. That the College of Agricultural Engineering at Marchak in Sikkim (hereinafter referred to as the said College) shall be managed as per Statutes, Ordinances and Regulations made by the University from time to time.
3. That the said College shall offer Bachelor of Agricultural Engineering with course programme as approved by the University.

4. That the College shall initially have an intake capacity of 30 (thirty) students including those to be admitted on the basis of All – India entrance examination conducted by Indian Council of Agricultural Research, which may be raised to 40 (forty) in due course. The seats shall be allotted in the following manner to the states of North-Eastern Region as defined in the Central Agricultural University Act and to Indian Council of Agricultural Research.

1. Arunachal Pradesh	4
2. Manipur	6
3. Meghalaya	5
4. Mizoram	3
5. Sikkim	2
6. Tripura	6
7. Indian Council of Agricultural Research	4

Total

30

5. The said College shall have four Departments as specified in column 2 of the table below and shall consist of Dean, Professor, Associate Professors and Assistant Professors specified in the corresponding entry in the table.

Serial Number (1)	Departments (2)	Professor (3)	Associate Professor (4)	Assistant Professor (5)	Total (6)
1.	Dean	1	-	-	1
2.	Basic Science and Humanities	1	5	6	12
3.	Farm Machinery and Power	1	3	7	11
4.	Soil and Water Engineering	1	3	7	11
5.	Post Harvest Technology	1	3	7	11
Total		5	14	27	46

This Ordinance shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

S. N. PURI
Vice-Chancellor

O R D I N A N C E**• Imphal, the 19 th November , 2005****No. 3 of 2005**

No. CAU/REG/584/Ord/05. - Whereas the sanction of the Central Agricultural University Scheme under the VIIIth Five Year Plan as communicated by the Joint Secretary, DARE and Secretary, Indian Council of Agricultural Research vide letter number 1(2)/92-PI&M (Part-III) dated 13th October, 1993 provides for establishment of the Central Agricultural University with Headquarters at Imphal.

And whereas the aforesaid sanction also provides for creation and the filling up both Academic and Scientific positions such as Director of Research, Director of Extension Education, Director of Instruction, Deputy Director (Research), Deputy Director (Extension Education) and Deputy Director (Instruction) and their equivalent academic position in the University Grant Commission Grades.

And whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education has approved the making of an Ordinance for creating and filling the various academic and scientific positions for the Central Agricultural University vide letter No. 5- 8 / 2005 - CAU dated 11.11.2005.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (x) of section 5 and sub-section (2) read with clauses (n) and (q) of sub-section (1) of section 27 of the Central Agricultural University Act, 1992 (40 of 1992) and with the previous approval of the Central Government, I, the Vice-Chancellor of Central Agricultural University, Imphal do hereby create the aforesaid posts in the said University , as mentioned in Appendix-I and Appendix-II.

S. N. PURI
Vice-Chancellor

APPENDIX – I**Academic and Scientific positions of the Central Agricultural University, Imphal**

Sl. No.	Name of post	No. of Post	Classification	Pay Scale
1.	Director of Research	1	Group 'A'	Rs.16400-450-22400
2.	Director of Instruction	1	Group 'A'	Rs.16400-450-22400
3.	Director of Extension Education	1	Group 'A'	Rs.16400-450-22400

APPENDIX – II**Academic and Scientific positions of the Central Agricultural University, Imphal**

Sl. No.	Name of post	No. of Post	Classification	Pay Scale
1.	Deputy Director of Research	2	Group 'A'	Rs.12000-420-18300
2.	Deputy Director of Instruction	2	Group 'A'	Rs.12000-420-18300
3.	Deputy Director of Extension Education	2	Group 'A'	Rs.12000-420-18300

S.N. Puri
Vice-Chancellor

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 6th February 2006

No. 17-1/2006-PCI/15296-442—

The following resolutions passed by the Pharmacy Council of India in its 76th meeting of the Central Council held on 20th & 21st January, 2006 are published hereunder as required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).

DIPLOMA IN PHARMACY**Resolution No.76/PCI/1371**

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under:

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>ANDHRA PRADESH</u>				
6/17-630/2005-PCI	Malineni Lakshmaiah College of Pharmacy, Kanumalla Post, Singarayakonda, Prakasam (Dt.) – 523 101.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	The Secretary State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building 7th Floor, Tank Bund Road Hyderabad – 500 063.
7/17-620/2003-PCI	Koringa College of Pharmacy, Korangi Village – 533 461, Tallarevu Mandal, E.G. Distt.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
9/17-585/2003-PCI	SRR College of Pharmaceutical Sciences, Valbhapur (V), Elkathurthy (Mdl), Distt. Karimnagar – 505 476.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
10/17-605/2004-PCI	Hindu College of Pharmacy, Amravati Road, Guntur – 522 002.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
11/17-595/2003-PCI G. Pulla Reddy College of Pharmacy, Mehdiapatnam, Hyderabad – 500 028.		60	From 2003-2004 to 2005-2006	The Secretary State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building 7th Floor, Tank Bund Road Hyderabad – 500 063.
15/17-594/2003-PCI Sarada College of Pharmaceutical Scs., Konda Kavuru (Post), Narasaraopet (Mandal) – 522 602, Guntur Distt.		60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
16/17-536/98-PCI Bapatla College of Pharmacy, Bapatla - 522 101, Guntur Dist.		60	2007-2008	- do -
17/17-26/94-PCI Govt. Polytechnic, Viskhapatnam – 530 007.		60	2007-2008	- do -
18/17-604/2004-PCI Jangaon Institute of Pharmaceutical Sciences, Yeshwanthapur, Jangaon, Dist. Warangal.		60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
19/17-274/94-PCI Govt. Polytechnic for Women, Kadapa– 516 002.		60	2005-2006	- do -
222/17-283/2005-PCI Govt. Polytechnic for Women, Hindupur – 515 202.		50	2005-2006	- do -
223/17-29/2002-PCI Govt. Polytechnic, Masab Tank, Hyderabad – 500 028.		60	2006-2007	- do -
224/17-179/2003-PCI K.E.S.Polytechnic for Women, P.W.D. Grounds, Vijayawada – 520 002.		60	2007-2008	- do -
238/17-581/2003-PCI Raghavendra Institute of Pharmaceutical Education and Research, Saigram Krishnamreddypalli Cross, Chiyyedu (PO), Anantapur – 515 721.		60	2007-2008	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>ASSAM</u>				
21/17-292/95-PCI Institute of Pharmacy, Guwahati Medical College, Narakachal Hill Top, Guwahati – 781 032.		60	2007-2008	The Director Technical Education Kahilipara Guwahati – 781 019.
<u>BIHAR</u>				
22/17-95/99-PCI Bihar College of Pharmacy, New Bailey Road, Danapur, Patna – 801 503.		60	2005-2006	The Chairman, Controller of Examination, (Diploma in Pharmacy), Deptt. of Health, Med.Edn.& F.W. Patna – 800 001.
<u>CHHATTISGARH</u>				
23/17-590/2005-PCI Smt. S.L. Trivedi Institute of Pharmaceutical Sciences, Guru Ghasi Das University, Bilaspur – 495 009.		60	From 2003-2004 to 2005-2006	The Registrar Guru Ghasi Das University Bilaspur – 495 009.
<u>GUJARAT</u>				
24/17-151/96-PCI A.R. College of Pharmacy & G.H. Patel Institute of Pharmacy, P.B. No. 19, Vallabh Vidyanagar – 388 120.		60	2005-2006	The Registrar, Sardar Patel University, P.B.No.10, Vallabh Vidyanagar-388 120 Distt. Kheda.
178/17-61/95-PCI B.K. Mody Govt. Pharmacy College Polytechnic Campus, Near Aji Dam, Bhavnagar Road, Rajkot – 360 003.		60	2005-2006	The Registrar, Saurashtra University, University Campus, Kalawad Road, Rajkot – 360 005.
179/17-7/2005-PCI L.M. College of Pharmacy P.B. No.4011, Opp. Gujarat University, Navrangpura, Ahmedabad – 380 009.		120	2009-2010	The Registrar, Gujarat University, Navrangpura Ahmedabad – 380 009.
<u>HARYANA</u>				
26/17-34/05-PCI Deptt. of Pharmacy, Pt. B.D. Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak – 124 001.		60	2005-2006	The Registrar, Maharishi Dayanand University, Rohtak – 124 001.

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
27/17-164/94-PCI/ Govt. Polytechnic, Mandi Adampur, (Hissar) - 125 052.		45 (Raise in adms. from 40 to 45 from 2004-2005 academic session)	2007-2008	The Director State Board of Tech. Education Haryana, S.C.O.No.38-39 Sector-17-A Chandigarh – 160 017 (U.T.).
30/17-394/98-PCI Dehat Vikas College of Pharmacy Tigaon, (Faridabad).		60	2005-2006	- do -

JHARKHAND

31/17-410/2005-PCI Ranchi College of Pharmacy, BIMMS Campus, Prem Nagar (Hesag), Hatia, Ranchi – 834 003.	60	2005-2006	The Chairman, Controller of Examination, (Diploma in Pharmacy), Deptt. of Health, Med.Education & F.W. Patna – 800 001.
---	----	-----------	--

KARNATAKA

32/17-450/94-PCI Shri Veerbhadreshwar Education Trust's College of Pharmacy, Humnabad – 585 330, Distt. Bidar.	60	2005-2006	The Member-Secretary O/o the Board of Examining Authority, State of Karnataka III Floor, Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore-560 027.
33/17-447/2003-PCI The Oxford Institute of Pharmacy, C.A. Site No.40, 1 st Phase, J.P. Nagar, Bangalore – 560 078.	60	2005-2006	- do -
34/17-122/2002-PCI Sri Adichunchanagiri College of Pharmacy, Balagangadharanatha Nagara – 571 448, Nagamangala Taluk Mandya Distt.	60	2005-2006	- do -
35/17-445/2002-PCI Basaveshwara College of Pharmacy, Bidar Vidya Kendra(R), Sastapur Bangla, Basayakalyan – 585 327 Distt. Bidar.	60	2005-2006	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
36/17-245/2002-PCI	Raman College of Pharmacy, No. 107, Pipeline Road, Kurubarahalli, Bangalore – 560 086	60	2005-2006	The Member-Secretary O/o the Board of Examining Authority, State of Karnataka III Floor, Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore - 560 027.
37/17-440/2001-PCI	East West College of Pharmacy, No.1, Varalakshmi Complex, Opp. P.W.D. Quarters, Monorayana Palya, R.T. Nagar, Bangalore – 560 032.	60	2005-2006	- do -
38/17-69/2002-PCI	K.L.E. Society's Sardar V.V. Patil School of Pharmacy, Ind Block, Rajajinagar, P.B. No.1062, Bangalore – 560 010.	60	2007-2008	- do -
39/17-167/2002-PCI	M.M.U. College of Pharmacy, K.K. Doddi, Ramanagaram - 571 511, Bangalore Distt.	60	2007-2008	- do -
40/17-138/2003-PCI	B.L.D.E. Association's School of Pharmacy, Engg. College Campus, Ashram Road, Bijapur – 586 103.	60	2005-2006	- do -
41/17-43/2003-PCI	Academy of Medical Education, V.L. College of Pharmacy, Manik Prabhu Temple Road, Raichur – 584 103.	80	2007-2008	- do -
42/17-153/93-PCI	Luqman College, of Pharmacy, Post Box No.86, Old Jewargi Road, Behind P & T Colony, Gulbarga – 585 102.	60	2005-2006	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
43/17-472/2001-PCI	Sri Venkateshwara C.K. Institute of Pharmacy, No.999, 1 st Cross, KHB Road, Kaval Byrasandra New Extension, R.T. Nagar, Bangalore – 560 032. (formerly situated at No.27, 2 nd Cross, Adarsh Nagar, Manorayanapalya, R.T. Nagar Post Bangalore-560 032).	60	2005-2006	The Member-Secretary O/o the Board of Examining Authority, State of Karnataka III Floor, Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle Dr. P. Kalinga Rao Road Bangalore - 560 027.
44/17-238/95-PCI	V.V. Sangha's Togari Veeramallapa Memorial College of Pharmacy, Gandhinagar, Bellary – 583 103.	60	2007-2008	- do -
45/17-239/2003-PCI	Sri Ramakrishna College of Pharmacy, Jyothinagar, (Next to Chikmagalur Coffee Curing Works) Chikmagalur-577 102.	60	2005-2006	- do -
226/17-190/90-PCI	Milind Institute of Pharmacy J.C. Nagar, W.C. Road, Pipe Line Road, Mahalakshampuram Post, Bangalore - 560 086.	60	2005-2006	- do -
242/17-74/99-PCI	B.E.A School of Pharmacy, S.S. Layout, Shamanur Road, Davangere – 577 004.	60	2005-2006	- do -
243/17-393/2004-PCI	H.M.S. College of Pharmacy, H.M.S. Education Society Campus, Shettihalli Road, Tumkur – 572 102.	60	2005-2006	- do -
261/17-140/2004-PCI	Seshadripuram College of Pharmacy, No.27, Nagappa Street, Seshadripuram, Bangalore - 560 020.	60	2007-2008	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>KERALA</u>				
46/17-226/2005-PCI	Fathima College of Pharmacy, Malik Dhinar Complex, Kilikolloor, P.O., Kollam – 691 004.	120	2001-2002	The Chairman Board of D.Pharm. Examinations, Dte.of Medical Education, C/o College of Pharm.Sciences, P.O.Medical College, Thiruvananthapuram– 695 011.
245/17-516/99-PCI	J.D.T. Islam College of Pharmacy P.B.No.1702, Jamiath Hill, Malabar, Calicut – 673 012.	60	2007-2008	- do -
<u>MADHYA PRADESH</u>				
181/17-645/2004-PCI	Swamy Vivekanand College of Pharmacy, College Campus, Barkheri Kala, Neelbad Road, P.O. Suraj Nagar, Bhopal - 462 044.	60	2005-2006	The Secretary, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya Airport, Bypass Road, Gandhi Nagar Bhopal - 462 036.
<u>MAHARASHTRA</u>				
47/17-197/2005-PCI	Smt. Kusumati Wankhede Institute of Pharmacy, Katol – 441 302 (Distt. Nagpur)	60	2007-2008	The Secretary Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building III Floor, 49, Kherwadi Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) Mumbai – 400 051.
48/17-622/2004-PCI	Shree Mahavir Education Society's Shree Mahavir Institute of Pharmacy, 166 Mhasrul – Varvandi Road, Nashik – 422 002.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
49/17-37/2004-PCI	Principal K.M. Kundnani's Pharmacy Polytechnic, Opp. Railway Station, Ulhasnagar – 421 003.	60	2007-2008	- do -
50/17-145/99-PCI	J.B.S.P. Mandal's Institute of Pharmacy, Shivajinagar, (Gadhi) Georai – 431 127 Dist. Beed.	60	2007-2008	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
51/17-613/2004-PCI	Samarth Educational Trust's Sawkar Pharmacy College, Jaitapur, Tal. & Dist. Satara- 415 004.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	The Secretary Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building III Floor, 49, Kherwadi Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) Mumbai - 400 051.
52/17-607/2004-PCI	Jai Mahakali Shikshan Sanstha's Agnihotri Institute of Pharmacy, Agnihotri College Campus, Bapuji Wadi, Sindi (Meghe), Wardha - 442 001.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
53/17-116/2005-PCI	Institute of Diploma in Pharmacy, Wanadongri, Hingna Road, Nagpur - 441 110.	60	2007-2008	- do -
54/17-609/2004-PCI	Jayawant Institute of Pharmacy, S.No. 80, Pune-Mumbai Bypass Highway, Tathawade, Pune - 411 033.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
55/17-204/2002-PCI	Appasaheb Birnale College of Pharmacy, Sangli-Miraj Road, South Shivajinagar, Sangli - 415 416.	60	2007-2008	- do -
57/17-587/2005-PCI	Shri Gajanan Maharaj Shikshan Prasarak Mandal's Sharadchandra Pawar Institute of Pharmacy, A/P Otur, Tal: Junner, Distt. Pune.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
58/17-624/2004-PCI	Khandesh Education Society's College of Pharmacy, Near Railway Station, Amalner - 425 402, Distt. Jalgaon.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
59/17-612/2004-PCI	RMP's Bhalchandra Institute of Pharmacy, Shicago Hills, Gorhe (Kd), Panshet Road, Post-Khanapur, Tal. Haweli, Distt. Pune - 411 042.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
60/17-148/2000-PCI Shri Sharda Bhavan Education Society's Nanded Pharmacy College (Poly.), Opp. Kasturba Matra Seva Kendra, Shyam Nagar, Nanded - 431 605.		60	2005-2006	The Secretary Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building III Floor, 49, Kherwadi Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) Mumbai - 400 051.
62/17-56/2002-PCI Institute of Industrial & Pharmaceutical Technology, Panchvati, Mumbai-Agra Road, Nashik - 422 003.		60	2007-2008	- do -
63/17-625/2004-PCI Jagdamba Education Society's S.N.D. Diploma College of Pharmacy A/P Bahulgaon, Tal.-Yeola, Dist. Nashik - 423 401.		60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
64/17-626/2004-PCI Dr. J.J. Magdum Trust's, Anil Alias Pintu Magdum Memorial, Pharmacy College, Dharangutti, T1. Shirol, Distt. Kolhapur.		60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
65/17-9/99-PCI Govt. Polytechnic, National Highway No.6, Jilha Peth, Jalgaon - 425 002.		60	2007-2008	- do -
66/17-20/98-PCI Govt. College of Pharmacy, Vidyanagar, Karad - 415 124, Distt. Satara.		60	2005-2006	- do -
70/17-400/2005-PCI Ravi Bahu - Uddeshiya Shikshanik Sanstha's Ravi Institute of Diploma in Pharmacy Mahadula, Devi Road, Koradi, Ta. Kamptee, Dist. Nagpur. (formerly situated at Great Nag Road, Siraspeth, Reshimbag, Nagpur - 440 009).		60	2005-2006	- do -
71/17-623/2004-PCI Sri Gulabrao Deokar Institute of Pharmacy & Research Centre, 2 nd Floor, Near Dr. Babasaheb Ambedkar Market, Jalgaon - 425 001.		60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
72/17-388/98-PCI	Poona District Education Association's Seth Govind Raghunath Sable College of Pharmacy (Polytechnic) A/P. Saswad, Tal Purandar, Distt. Pune – 412 301.	60	2007-2008	The Secretary Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building III Floor, 49, Kherwadi Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) Mumbai – 400 051.
73/17-222/2002-PCI	M.A.H. College of Pharmacy, Boradi, Tal. Shirpur, Distt. Dhule.	60	2007-2008	- do -
74/17-276/97-PCI	Jalna Education Society's Institute of Pharmacy, JES College Campus, Jalna – 431 203.	60	2005-2006	- do -
75/17-610/2004-PCI	Vasantidevi Patil Institute of Pharmacy, Kodoli, Tal.-Panhala, Distt. Kolhapur – 416 114.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
77/17-209/99-PCI	Vidya Bharati College of Pharmacy, C.K. Naidu Marg, Camp, Amravati – 444 602.	60	2007-2008	- do -
78/17-601/2004-PCI	Vishal Junnar Seva Mandal's Institute of Pharmacy for Women, Ale – 412 411, Tal. Junnar Distt. Pune.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
79/17-545/98-PCI	Manoharbhair Patel Institute of Pharmacy, Village-Kudwa, Post Box 44, Gondia - 441 614.	60	2005-2006	- do -
82/17-635/2004-PCI	Shri Jain Vidya Prasark Mandal's Shri Fattechand Jain College of Pharmacy, Acharya Anand Rushiji Marg, Telco Road, D-II, 60-61, Chinchwad MIDC, Pune – 411 019.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
83/17-637/2004-PCI	Institute of Pharmacy (Diploma), 2390-B, K.B. Hidayatullah Road, Azam Campus, Camp, Pune – 411 001.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
183/17-640/2004-PCI Jamia College of Pharmacy, Molgi Road, Jamia Islamia Ishaatul Uloom, Akkalkuwa, Dist. Nandurbar – 425 415.		60	From 2003-2004 to 2005-2006	The Secretary Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building III Floor, 49, Kherwadi Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) Mumbai – 400 051.
249/17-63/98-PCI Kamala Nehru Polytechnic (Pharmacy) P.B.No.65, Rouza Baugh, Aurangabad – 431 001.		120	2006-2007	- do -
250/17-417/2005-PCI Rajarshi Shahu Chhatrapati Institute of Pharmacy, 2968 C, Dasara Chowk, Kolhapur – 416 002.		60	2007-2008	- do -
251/17-653/2004-PCI Priyadarshani Yashodhara College of Pharmacy, Shashtri Nagar, Mul Road, Chandrapur – 442 401.		60	2007-2008	- do -
252/17-650/2004-PCI College of Pharmacy At.-Jawalwadi, Post Medha, Tal. - Jaoli, Distt. Satara.		60	2007-2008	- do -
253/17-476/98-PCI Sitabai Thite College of Pharmacy, Shirur (Ghodnadi) - 412 210 Distt. Pune.		60	2007-2008	- do -

ORISSA

84/17-304/95-PCI The Pharmaceutical College, Samaleswari Vihar, Tingipali, Barpali, Distt. Bargarh – 768 029.		60	2007-2008	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar Railway Colony Bhubaneshwar – 751 017.
85/17-330/96-PCI Gayatri College of Pharmacy, Gayatri Vihar, Jamadarpali, Via-Sason, Sambalpur-768 101.		60	2007-2008	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
86/17-196/2003-PCI Siddheswar College of Pharmaceutical Sciences, At/P.O. Amarda Road, Distt. Balasore - 756 030.		60	2005-2006	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar Railway Colony Bhubaneshwar - 751 017.
87/17-193/93-PCI Kanak Manjari Institute of Pharmaceutical Sciences, At/PO Chhend, Rourkela - 769 015 Distt. Sundargarh.		60	2005-2006	- do -
88/17-618/2002-PCI Institute of Pharmaceutical Sciences, Srikanthapur (Near Ranipatna) Post/Distt. Balasore - 760 030.		60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
89/17-331/2005-PCI College of Pharmaceutical Sciences, At/Bidyaniketan, Marine Drive Road, PO : Baliguali, Distt. Puri - 752 002.		60	2007-2008	- do -
91/17-482/95-PCI Women's Polytechnic, At/P.O. Chandrasekharapur, Near Xavier Institute of Management, Bhubaneshwar - 751 023.		40 (Raise in adms. from 30 to 40 from 2005-2006 academic session)	2005-2006	The Member-Secretary State Council for Technical Education & Vocational Training Chandrasekharapur Cuttack - 751 001.
<u>PUNJAB</u>				
92/17-40/2005-PCI Govt. Polytechnic for Women, Ladwali Road, Jalandhar City PIN - 144 001.		30	2005-2006	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training Plot No.1-A, Sector 36-A, Chandigarh.
93/17-396/99-PCI Adesh Polytechnic, Vill. Marh.Mallu Sadiq, Ferozpur Road, Muktsar - 152 026.		60	2005-2006	- do -
94/17-289/2004-PCI Longowal College of Pharmacy, College Road, Shakti Nagar, Derabassi, Distt. Patiala - 140 507.		60	For 2004-2005 and 2005-2006	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
95/17-290/2002-PCI	Shaheed Bhagat Singh Polytechnic & Pharmacy College, Patti – 143 416.	60	2007-2008	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training Plot No.1-A, Sector 36-A, Chandigarh.
96/17-616/2004-PCI	Rayat Polytechnic, Village & P.O. Rail Majra, (Near Ropar) Tehsil : Balachaur, Distt. Nawanshahr – 144 533.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
97/17-617/2004-PCI	Lovely Institute of Technology, Jalandhar – Ludhina G.T. Road, Near Chehru Railway Bridge, Phagwara - 144 001.	60	From 2003-2004 to 2005-2006	- do -
99/17-260/2002-PCI	S.D. College of Pharmacy, Barnala – 148 101.	60	2007-2008	- do -
100/17-507/2002-PCI	Baba Isher Singh Polytechnic, Dharamkot Road (Moga), Kot-Ise-Khan – 142 043.	60	2007-2008	- do -
<u>RAJASTHAN</u>				
101/17-223/93-PCI	Lachoo Memorial College of Science & Technology, Pharmacy Wing, Sector – A, Shastry Nagar, Jodhpur – 342 003.	60	2007-2008	The Registrar University of Rajasthan Jaipur – 302 004. (Upto 2002-2003) The Registrar Jai Narain Vyas University Jodhpur (From 2003-2004)
102/17-207/99-PCI	Nehru Memorial College of Pharmacy, Hanumangarh Town – 335 513.	60	2007-2008	The Registrar University of Rajasthan Jaipur – 302 004.
103/17-535/2003-PCI	Sri Bajrang College of Pharmacy, Deeg (Bharatpur) – 321 203.	60	2007-2008	- do -
104/17-348/99-PCI	Maharishi Arvind College of Pharmacy, Ambabari, Ambabari Circle, Jaipur – 302 023.	60	2005-2006	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
105/17-201/2001-PCI Bhupal Nobles' College of Pharmacy, Old Station Road, Udaipur - 313 001.		60	2007-2008	The Registrar Mohanlal Sukhadia University Udaipur.
189/17-586/2003-PCI Agarwal Pharmacy College, Near Shiv Colony, (PO) Merta City - 341 510.		79 39 60	For 2003-2004 For 2004-2005 For 2005-2006	The Registrar Maharashi Dayanand Saraswati University, Ajmer - 305 001.
<u>TAMILNADU</u>				
110/17-188/2003-PCI Coimbatore Medical College, Coimbatore - 641 014.		60	2005-2006	The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk, Chennai - 600 010.
111/17-469/2001-PCI Nandha College of Pharmacy, 29/4-Koorapalayam Pirivu, Pitchandampalayam Post, Erode - 638 052.		60	2005-2006	- do -
113/17-174/2003-PCI Thanjavur Medical College, Thanjavur - 613 004.		60	2005-2006	- do -
115/17-479/2002-PCI S.R.M. College of Pharmacy S.R.M. Nagar Kattankulathur - 603 303 Kancheepuram Distt.		60	2007-2008	The Registrar S.R.M. Institute of Science & Technology (Deemed University) S.R.M. Nagar Kattankulathur - 603 203 Kancheepuram Distt. (From 2005-2006 onwards for both D.Pharm & B.Pharm) Earlier affiliated to - (For D.Pharm) The Director Directorate of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk, Chennai - 600 010. (For B.Pharm) The Registrar, The Tamil Nadu Dr.M.G.R. Medical University, No.69 (Old No.40), P.B. No.1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>UTTAR PRADESH</u>				
116/17-259/2005-PCI	Govt. Polytechnic, Agra Road, Lakhimpur-Kheri – 262 701.	40	2005-2006	The Secretary, Board of Technical Education, Guru Gobind Singh Marg, Uttar Pradesh, Lucknow - 226 001.
117/17-556/99-PCI	Gopichand College of Pharmacy, Ahera, Baghpat – 250 609.	60	2007-2008	- do -
118/17-13/2004-PCI	Department of Pharmacy, GSVM Medical College, Kanpur – 208 002.	60	2005-2006	The Secretary, U.P. State Medical Faculty, 5, Sarvapally Mall, Avenue Road, Lucknow – 226 001.
<u>UTTARANCHAL</u>				
120/17-136/2005-PCI	Govt. Polytechnic, Srinagar – 246 174 (Garhwal), Dist. Pauri	40 (Raise in admns. from 30 to 40 from 2005-2006 academic session)	2007-2008	The Secretary Board of Technical Education Guru Gobind Singh Marg Uttar Pradesh Lucknow – 226 001. (Upto 2002-2003) The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir, Roorkee – 247 667 Distt. Haridwar. (From 2003-2004)
190/17-255/2005-PCI	Govt. Polytechnic, Kashipur - 244 713 (Udham Singh Nagar).	40 (Raise in admns. from 30 to 40 from 2005-2006 academic session)	2005-2006	The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir, Roorkee – 247 667 Distt. Haridwar.
<u>WEST BENGAL</u>				
121/17-549/99-PCI	Cooch Behar Polytechnic, Keshab Road, Cooch Behar – 736 101.	40	2007-2008	The Secretary West Bengal State Council of Technical Education Govt. of West Bengal Bikash Bhawan, 10th Floor East Block, Salt Lake, Kolkata-700 091.

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
122/17-583/2001-PCI	Calcutta Institute of Pharmaceutical Technology & Allied Health Sciences, Village & P.O.-Banitabla, Uluberia, Dist. Howrah – 711 316	60	From 2003-2004 to 2005-2006	The Secretary West Bengal State Council of Technical Education Govt. of West Bengal Bikash Bhawan, 10th Floor East Block, Salt Lake, Kolkata-700 091.

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the above mentioned Examining Authorities, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

DEGREE IN PHARMACY

Resolution No.76/PCI/1372

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>ANDHRA PRADESH</u>				
123/32-202/2001-PCI	Sarojini Naidu Vanita Pharmacy, Maha Vidyalaya, Mukarramjahi Road, Exhibition Grounds, Hyderabad - 500 001.	60	2007-2008	The Registrar Osmania University Hyderabad - 500 007.
124/32-210/2000-PCI	Vaagdevi College of Pharmacy, H.No. 2-2-457/A, Ramnagar, Hanamkonda – 506 001	60	2007-2008	The Registrar Kakatiya University Warangal – 506 009.
125/32-24/94-PCI	St. Peter's Institute of Pharmaceutical Sciences, # 2-4-1211, Vidyanagar, Hanamkonda – 506 001	60	2007-2008	- do -
129/32-208/2001-PCI	Sultan-UI-Uloom College of Pharmacy, "Mount Pleasant", 8-2-249, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034.	60 (Raise in admn. from 40 to 60 from 2004-2005 academic session)	2007-2008	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally Hyderabad - 500 072.
231/32-256/2005-PCI	Bharat Institute of Technology Mangalpalli Village Ibrahimpattam (Mandal) Distt. Ranga Reddy – 501 510.	60	2005-2006	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
254/32-253/2001-PCI	Malineni Lakshmaiah College of Pharmacy, Kanumalla Post, Singarayakonda, Prakasam (Dt.) – 523 101.	60	2006-2007	The Registrar Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar - 522 510.
255/32-241/2003-PCI	Deccan School of Pharmacy, Zafargarh, P.O. Kanchanbagh, Hyderabad – 500 058.	40	2006-2007	The Registrar Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally Hyderabad - 500 072.
<u>CHHATTISGARH</u>				
130/32-235/2002-PCI	Smt. S.L. Trivedi Institute of Pharmaceutical Sciences, Guru Ghasidas University, Bilaspur – 495 009.	60	2007-2008	The Registrar Guru Ghasidas University Bilaspur – 495 009.
<u>DELHI</u>				
260/32-27/96-PCI	Delhi Institute of Pharmaceutical Sciences & Research (DIPSAR) Pushp Vihar, Sector – 3, New Delhi – 110 017.	60 (Raise in adms. from 30 to 60 from 2004-2005 academic session)	2006-2007	The Registrar University of Delhi Delhi – 110 007.
<u>GUJARAT</u>				
132/32-55/90-PCI	A.R. College of Pharmacy & G.H. Patel Institute of Pharmacy, P.B. No.19, Vallabh Vidyanagar – 388 120.	60	2007-2008	The Registrar Sardar Patel University, P.B.No.100, Vallabh Vidyanagar – 388 120 Dist. Kheda.
192/32-8/02-PCI	L.M. College of Pharmacy, P.B. No. 4011, Opp. Gujarat University, Navrangpura, Ahmedabad – 380 009.	90	2009-2010	The Registrar Gujarat University, Navrangpura, Ahmedabad – 380 009.
<u>KARNATAKA</u>				
134/32-109/96-PCI	K.L.E. Society's College of Pharmacy, IInd Block, Rajajinagar, P.B.No.1062, Bangalore - 560 010.	60	2009-2010	The Registrar Rajiv Gandhi Univ. of Health Scs., Karnataka, 4th 'T' Block Jayanagar, Bangalore-560 041.

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
135/32-44/95-PCI	Luqman College of Pharmacy, Post Box No. 86, Behind P & T Colony, Jewargi Road, Gulbarga – 585 102.	60	2007-2008	The Registrar Rajiv Gandhi Univ. of Health Scs., Karnataka, 4th 'T' Block Jayanagar, Bangalore-560 041.
136/32-96/2002-PCI	Bharathi College of Pharmacy, Bharathinagara – 571 422 Maddur Tq., Mandya Distt.	60	2007-2008	- do -
137/32-141/2005-PCI	Sri K.V. College of Pharmacy M.G. Road, Chickballapur - 562 101, Distt. Kolar.	40	2005-2006	- do -
139/32-48/99-PCI	Maratha Mandal's College of Pharmacy, 1007, Malmaruti Extension, Belgaum – 590 016.	40	2005-2006	- do -

MADHYA PRADESH

195/32-168/98-PCI	B.R. Nahata College of Pharmacy, Bhanwar Lal Nahata Marg, Post Box No.6, Mandsaur – 458 001.	60	2007-2008	The Secretary, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya Airport, Bypass Road, Gandhi Nagar Bhopal - 462 036.
196/32-250/2002-PCI	Smriti College of Pharmaceutical Education, 4/1, Pipliya Kumar Kakkad, Mayakhedi Road, Indore – 452 010.	60	2006-2007	- do -

MAHARASHTRA

153/32-271/2004-PCI	Shri Neminath Jain Brahmacharyashram's (Jain Gurukul), Shriman Sureshdada Jain College of Pharmacy (Degree) Neminagar, Chandwad, Distt. Nashik – 423 101.	60	From 1999-2000 to 2005-2006	The Registrar, Maharashtra University of Health Scs., Gangapur Road, Anandvalli, Nashik – 422 005. (Upto 2000) The Registrar University of Pune, Ganeshkhind Pune - 411 007. (From 2001)
---------------------	---	----	--------------------------------	--

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
155/32-275/2004-PCI	Agnihotri College of Pharmacy, Agnihotri College Campus, Bapuji Wadi, Sindi (Meghe), Wardha – 442 001.	60	2007-2008	The Registrar The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University Chhtrapati Shivaji Maharaj Administrative Premises Ravindranath Tagore Marg Nagpur – 440 001.
156/32-90/98-PCI	Seth Govind Raghunath Sable College of Pharmacy, Saswad, Distt. Pune – 412 301.	60	2007-2008	The Registrar University of Pune Ganeshkhind Pune – 411 007.
158/32-10/2000-PCI	Govt. College of Pharmacy, Vidyanagar, Karad – 415 124, Dist. Satara	30	2005-2006	The Registrar Shivaji University Vidyanagar Kolhapur – 416 001.
159/32-211/2005-PCI	Govt. College of Pharmacy, Hotel Vedant Road, Opp. Govt. Polytechnic, Osmanpura, Aurangabad – 431 005.	40	2005-2006	The Registrar, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, University Campus, Aurangabad – 431 004.
197/32-227/2005-PCI	Yavatmal Zila Vikas Samiti's Pataldhamal Wadhwani College of Pharmacy, Girija Nagar, Dhamangaon Road, Yavatmal – 445 001.	60	2006-2007	The Registrar, Sant Gadge Baba Amravati University, University Campus, Amravati - 444 602.
258/32-80/2001-PCI	Y.B. Chavan College of Pharmacy, P.O.Box No.33, Rauza Bagh, Aurangabad – 431 001.	60	2007-2008	The Registrar, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, University Campus, Aurangabad - 431 004.

ORISSA

232/32-264/2004-PCI	Jeypore College of Pharmacy, At/P.O. Rondapali, Jeypore – 764 002.	60	From 2001-2002 to 2005-2006	The Registrar Berhampur University Berhampur. (upto 2001-2002) The Registrar, Biju Patnaik University of Technology, UGIE Complex Rourkela – 769 014 . (From 2002-2003)
---------------------	--	----	--------------------------------	---

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>PUNJAB</u>				
163/32-238/2005-PCI	Amar Shaheed Baba Ajit Singh Jujhar Singh Memorial College of Pharmacy, Bela, Distt. Ropar 140 111	60 (Raise in adms. from 40 to 60 from 2004-2005 academic session)	2007-2008	The Registrar, Punjab Tech. University REC Campus, Amritsar Bye Pass, G.T. Road Jalandhar – 144 001.
164/32-206/2001-PCI	Deptt. of Pharmaceutical Sciences, Guru Nanak Dev University, Amritsar – 143 005	30	2005-2006	The Registrar Guru Nanak Dev University, Amritsar – 143 005.
<u>RAJASHTHAN</u>				
165/32-56/95-PCI	Bhupal Nobles' College of Pharmacy, Old Station Road, Udaipur – 313 001.	60	2007-2008	The Registrar Mohanlal Sukhadia University, Udaipur.
259/32-295/2001-PCI	Seth G.L. Bihani S.D. College of Technical Education, Institute of Pharmaceutical Science & Drug Research, Gagan Peth, Sri Ganganagar – 335 001.	60	2007-2008	The Registrar University of Rajasthan Jaipur – 302 001.
<u>TAMIL NADU</u>				
166/32-114/2003-PCI	Nandha College of Pharmacy, 29/4-Koorapalayam Pirivu, Pitchandampalayam Post Erode 638 052	60	2007-2008	The Registrar, The Tamil Nadu Dr.M.G.R. Medical University, No.69 (Old No.40), P.B. No.1200, Anna Salai, Guindy, Chennai - 600 032.
167/32-119/2005-PCI	Maharaji College of Pharmacy, No.1, VII Avenue, Besant Nagar, Chennai – 600 090	40	2007-2008	- do -

2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the above mentioned Examining Authorities, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

ARCHNA MUDGAL
Registrar-cum-Secretary

HARYANA WAKF BOARD

Ambala Cantt.-133001, the 10th January 2006

CORRIGENDUM

No. Wakf-45 Gen./Pub./Gazette/Vol. II—

In exercise of the powers conferred under section 27 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), which are accessible by me under the powers delegated by Haryana Wakf Board, the corrigendum of the under mentioned Wakf properties are hereby published in the Government of India Gazette - Part-III, Section- 4 under section 40 of the Wakf Act 1995:-

S. No.	Page No. of Gazette	S. No. of Gazette	Date of Gazette	Distt./ Tehsil	Village	Amendment
928	1572	Part-III, Section - 4	17-10-1972	Hissar Bhiwani	Tosham (33)	In column No. 5 area measuring 17K-14M may be read as 174 K-14M as per revenue record
475	2820	Part III, Section-4 No. 51	19-12-1970	Karnal	Karnal	In col. No.5 & 6 area measuring 01Bigha-06Biswas may be read as 4Bigha-06 Biswas and Khasra No. 5414 may be read as Khasra No. 5414 Min respectively.

Sd/- Illegible

Chief Executive Officer
Haryana Wakf Board